

# अभिव्यक्ति

## ABHIVYAKTI

07<sup>th</sup> - 22<sup>nd</sup> April 2021

संचार पखवाड़ा

के अवसर पर

निदेशक (मानव संसाधन) एवं

निदेशक (पावर) - अतिरिक्त प्रभार का संदेश



मेरे प्रिय साथियो,

नए वित्तीय वर्ष 2021- 22 के प्रारंभ पर मैं आपको और आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि यह वर्ष बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों के लिए सफलता और समृद्धि लेकर आए। मैं **बीएचईएल के प्रथम संचार पखवाड़ा "अभिव्यक्ति"** के शुभारंभ के अवसर पर भी आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

संवाद किसी विषय पर सोचने, उस सोच पर कार्य करने और उसके परिणाम के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान में कंपनी में चल रही 3C की पहल भी हमारा ध्यान प्रभावशाली संवाद की आवश्यकता की ओर आकर्षित करती है, जो कि प्रथम **C- Connect** से स्पष्ट है। वर्तमान परिदृश्य में, जहां बीएचईएल के समक्ष अनेक चुनौतियां खड़ी हैं, कंपनी विकास के मार्ग पर वापस आने के लिए निर्णायक कार्य हेतु तैयार है।

वर्तमान **"निर्णायक कार्य के वर्ष"** में उत्साहजनक परिणाम लाने और बीएचईएल के गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत मजबूत और कारगर संवाद श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को जोड़ना होगा और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना होगा।


7 अप्रैल 2021

"अभिव्यक्ति" सही संदेश के माध्यम से संवाद को बढ़ाने और इसके माध्यमों को ऑप्टिमाइज करने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों की एक कड़ी है, जिसका उद्देश्य हम प्रत्येक को जोड़ने पर बल देना है। इससे न केवल पूरे बीएचईएल में संवाद चैनलों को कारगर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकेगा, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं और विचारों को एक सूत्र में जोड़ना भी सुनिश्चित किया सकेगा।

टीम बीएचईएल ने पहले भी करके दिखाया है और अब भी करेगी। राष्ट्र और संगठन के समक्ष उत्पन्न इस संकट के दौर में हम प्रत्येक को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास करना होगा और कम्पनी के विकास की गति को वापस लाना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि **कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता है और भाग्य उसी का साथ देता है जो सपने देखने का साहस करता है।**

एक बार फिर, आप सबको वित्तीय वर्ष 2021 की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं!

आपका,



अनिल कपूर

Communicate to connect  
with a purpose

2021 निर्णायक  
कार्य वर्ष



Message from  
**Director (Human Resources) &  
 Director (Power) - Addl. Charge**

for

# अभिव्यक्ति ABHIVYAKTI



07<sup>th</sup> - 22<sup>nd</sup> April 2021



**COMMUNICATION FORTNIGHT**

*Dear Colleagues,*

At the commencement of the new fiscal year 2021-22, I wish you and your family good health and happiness. May the year ahead bring success and prosperity to all members of the BHEL family. I further extend my warm greetings on the occasion of the commencement of **BHEL's first Communication Fortnight - 'Abhivyakti'**.

Communication is the critical link in the chain of thought, action and result. The three C's initiative currently underway in the company also draws on the vital need for effective communication that is well enunciated in the first '**C**' - **Connect**.

In the present environment where BHEL is at the crossroads with several challenges looming large, the company has geared up for decisive action to get back on the growth trajectory.

For the currently underway '**Year of Decisive Action**' to produce encouraging results and to put BHEL back on the path to glory, a very strong and emphatic chain of communication has to bind each and every employee

April 7, 2021

together, and this has to percolate down to the last man.

'Abhivyakti' is a part of our efforts towards enhancing communication through correct messaging and for optimising the channels of communication aimed at boosting engagement of each one of us. Not only will this effectively streamline the channels of communication across BHEL but will also ensure the convergence of various streams of thought and ideas into one cohesive thread.

Team BHEL has done it in the past and will do it now as well. In this time of national & organisational crisis, each one of us has to put in all our might to put our dreams in motion and to regain our momentum. Let us not forget that there is **No Dream Too Big** and **destiny is kinder to those that Dare to Dream**.

Once again, wishing you all a successful FY 2021-22!

*Yours,*

Anil Kapoor

*Communicate* **to connect  
 with a purpose**

**2021** **YEAR OF  
 DECISIVE  
 ACTION**